



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 फाल्गुन 1946 (श०)
(सं० पटना 183) पटना, सोमवार, 10 मार्च 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
10 मार्च 2025

सं० वि०सं०वि०-02/2025-972/वि०सं०।—“बिहार विनियोग विधेयक, 2025”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 10 मार्च, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-01/2025]

बिहार विनियोग विधेयक, 2025

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह 01 अप्रैल 2024 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 2024-25 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 11187,14,17,000 (ग्यारह हजार एक सौ सतासी करोड़ चौदह लाख सत्रह हजार) रुपये की निकासी।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2024 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 11187,14,17,000 (ग्यारह हजार एक सौ सतासी करोड़ चौदह लाख सत्रह हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे।

3. विनियोग-I- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2024 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	18,52,80,000	0	18,52,80,000
		पूंजी	0	0	0
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	1,69,48,69,000	0	1,69,48,69,000
		पूंजी	0	0	0
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	2,11,38,000	0	2,11,38,000
		पूंजी	95,89,60,000	0	95,89,60,000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	14,24,75,000	0	14,24,75,000
		पूंजी	25,00,00,000	0	25,00,00,000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
07	निगरानी विभाग	राजस्व	1,09,00,000	0	1,09,00,000
		पूंजी	0	0	0
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,34,19,55,000	0	1,34,19,55,000
		पूंजी	5,20,00,000	0	5,20,00,000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	10,000	0	10,000
		पूंजी	5,51,17,20,000	0	5,51,17,20,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
12	वित्त विभाग	राजस्व	4,48,19,000	0	4,48,19,000
		पूंजी	1,000	0	1,000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
15	पेंशन	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	2,89,50,00,000	0	2,89,50,00,000
		पूंजी	0	0	0
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	1,04,67,09,000	0	1,04,67,09,000
		पूंजी	0	0	0
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	79,37,12,000	0	79,37,12,000
		पूंजी	0	0	0
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	6,24,09,28,000	0	6,24,09,28,000
		पूंजी	10,68,99,00,000	0	10,68,99,00,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	11,68,25,86,000	0	11,68,25,86,000
		पूंजी	3,70,00,00,000	0	3,70,00,00,000
22	गृह विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	4,22,97,41,000	0	4,22,97,41,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	48,31,37,000	0	48,31,37,000
		पूंजी	2,85,00,57,000	0	2,85,00,57,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	7,93,36,000	0	7,93,36,000
		पूंजी	0	0	0
27	विधि विभाग	राजस्व	6,50,00,000	0	6,50,00,000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	1,50,00,000	0	1,50,00,000
		पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	1,60,83,000	0	1,60,83,000
		पूंजी	5,00,00,000	0	5,00,00,000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	2,00,000	0	2,00,000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	3,18,50,000	7,50,000	3,26,00,000
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	45,78,50,000	0	45,78,50,000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	5,81,62,000	0	5,81,62,000
		पूंजी	0	0	0
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	80,00,00,000	0	80,00,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	5,02,25,00,000	0	5,02,25,00,000
		पूंजी	2,60,00,00,000	0	2,60,00,00,000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	3,38,30,000	0	3,38,30,000
		पूंजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	31,68,60,000	0	31,68,60,000
		पूंजी	0	0	0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	26,37,99,000	0	26,37,99,000
		पूंजी	0	0	0
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	2,50,00,00,000	0	2,50,00,00,000
		पूंजी	3,70,00,00,000	0	3,70,00,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	29,38,40,00,000	0	29,38,40,00,000
		पूंजी	0	0	0
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	राजस्व	11,99,26,000	0	11,99,26,000
		पूंजी	0	0	0
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	23,17,81,000	0	23,17,81,000
		पूंजी	0	0	0
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	21,95,50,000	0	21,95,50,000
		पूंजी	0	0	0
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	6,24,00,000	0	6,24,00,000
		पूंजी	50,00,00,000	0	50,00,00,000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
47	परिवहन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	6,28,37,37,000	0	6,28,37,37,000
		पूंजी	0	0	0
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	41,77,07,000	0	41,77,07,000
		पूंजी	0	0	0
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	82,11,00,000	0	82,11,00,000
		पूंजी	49,60,00,000	0	49,60,00,000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	1,96,36,89,000	0	1,96,36,89,000
		पूंजी	51,49,40,000	0	51,49,40,000
52	खेल विभाग	राजस्व	1,94,70,000	0	1,94,70,000
		पूंजी	0	0	0
योग राजस्व			74,96,73,48,000	7,50,000	74,96,80,98,000
योग पूंजी			36,90,33,19,000	0	36,90,33,19,000
महायोग			1,11,87,06,67,000	7,50,000	1,11,87,14,17,000

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं।

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 द्वारा स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शोधन में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 11187,14,17,000 (ग्यारह हजार एक सौ सतासी करोड़ चौदह लाख सत्रह हजार) रुपये, अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग कराने और इसे प्राधिकृत कराने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है।

(सम्राट चौधरी)

भार-साधक सदस्य।

पटना
दिनांक 10.03.2025

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 183-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>